



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 132]
No. 132]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 1983/चैत्र 18, 1905
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 1983/CHAITRA 18, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह संत्रालय
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1983

सं० का० नि० 320(अ) — भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (2) के प्रथम परन्तु और उपनियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 (1951 की 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) सख्या का नियम अधिनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् —

1 (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सख्या का नियम) तीसरा संशोधन विनियम, 1983 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग सख्या का नियम) विनियम, 1955 की अनुसूची में "महाराष्ट्र" शीर्षक तथा उसके नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् —

"महाराष्ट्र"

राज्य सरकार के अधीन बरिष्ठ पद 158
सरकार के मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त 1

सरकार के अपर मुख्य सचिव	1
सरकार के विशेष सचिव	2
सरकार के सचिव	17
प्रमण्डलों के आयुक्त	6
बिक्री कर आयुक्त	1
बन्दोबस्त आयुक्त तथा भू-अभिलेख निदेशक और पंजीकरण के महानिरीक्षक	1
सहायिका आयुक्त तथा सहायक समितियों के पंजीयक	1
ग्रोद्योगिक आयुक्त तथा ग्रोद्योगिक निदेशक	1
नगर प्रशासन के निदेशक तथा सरकार के सचिव	1
निदेशक प्रशासनिक स्टाफ कालेज	1
आयुक्त आदिम जाति	1
महा बन्दी तथा उत्पाद आयुक्त	1
मुख्य मंत्री के सचिव	1
सरकार के उप सचिव अथवा संयुक्त सचिव	30
राज्यपाल के सचिव	1
समाहर्ता (क्लेक्टर)	30
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषदें	29
अपर समाहर्ता	6
संयुक्त निदेशक, उद्योग	2
सिविल पूर्ति के निदेशक तथा सरकार के पदेन उप सचिव	1

(1)

सिविल प्रति के निदेशक (भंडार-संचालन)	1
श्रम आयुक्त	1
भू-अभिलेख के उप निदेशक	1
परिवहन आयुक्त	1
विक्रीकर के अपर आयुक्त	1
विक्रीकर के उप-आयुक्त	3
समाज कल्याण निदेशक	1
अपर आयुक्त	6
सीमा निदेशक	1
हथकरघा, विद्युत् करवा तथा सहकारी वस्त्र निदेशक	1
रोजगार के निदेशक	1
परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के	
पुनर्वास-उपनिदेशक	1
आयुक्त क्षेत्री विकास	1
राशिशि के नियंत्रक	1
अपर आयुक्त, आदिम जाति	2

158

2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 1 के 40 प्रतिशत के हिसाब से	63
3. भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम 1954 के नियम 8 के अन्तर्गत पदोन्नति तथा प्रवर्ण द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 के 33-1/3 प्रतिशत के हिसाब से	73
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 में 2 घटाकर	148
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 22.5 प्रतिशत के हिसाब से	63*
6. छुट्टी रिजर्व, उपर्युक्त 4 के 5.62 प्रतिशत के हिसाब से	8
7. कनिष्ठ पद, उपर्युक्त 4 के 23.17 प्रतिशत के हिसाब से	34
8. प्राशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 4 के 11.91 प्रतिशत के हिसाब से	18
सीधी भर्ती वाले पद	271
पदोन्नति वाले पद	73
कुल प्राधिकृत संख्या	344

*इनमें अतिरिक्त 30 पद शामिल हैं।

[सं० 11031/3/63-अ० भा० से०-II]

एम० पी० कुचप, डेप्ट अफिसरी

टिप्पणी —प्रधान नियम दिनांक 14-9-54 के गजट संख्या 158 के द्वारा प्रकाशित किया गया था। महाराष्ट्र संघर्ष के संबंध में प्रधान नियमों की अनुसूची III को क्रमशः भा० का० नि० संख्या 186 दिनांक 25-4-74, 1300 दिनांक 7-12-74, 486-ई दिनांक 33-7-76 और 159 दिनांक 9-2-80 द्वारा संशोधित किया गया है।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 1983

G.S.R. 320 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) and the first proviso to sub-rule (2) of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Maharashtra hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955 namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Third Amendment Regulations, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the Heading "Maharashtra" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely:—

"MAHARASHTRA"

1. Senior Posts under the State Government	158
Chief Secretary to Government and Development Commissioner	1
Additional Chief Secretary to Government	1
Special Secretaries to Government	2
Secretaries to Government	17
Commissioners of Divisions	6
Commissioner of Sales tax	1
Settlement Commissioner and Director of Land Records and Inspector General of Registration	1
Commissioner for Cooperation and Registrar of Cooperative Societies	1
Industries Commissioner and Director of Industries	1
Director of Municipal Admn. and Secretary to Government.	1
Director of Administrative Staff College	1
Commissioner of Prohibition and Excise	1
Tribal Commissioner	1
Secretary to Chief Minister	1
Deputy or Joint Secretaries to Government	30
Secretary to Governor	1
Collectors	30
Chief Executive Officers, Zilla Parishads	29
Additional Collectors	6
Joint Directors of Industries	2
Director of Civil Supplies and ex-officio Deputy Secretary to Government	1
Director of Civil Supplies (Storage and Movement)	1
Labour Commissioner	1
Deputy Director of Land Records	1

Transport Commissioner	1	4. Posts to be filled by direct recruitment 1 plus 2 minus 3 above	148
Additional Commissioner of Sales Tax	1		
Deputy Commissioners of Sales Tax	3	5. Deputation Reserve at 22.5% of 4 above	63*
Director of Social Welfare	1	6. Leave Reserve at 5.62% of 4 above	8
Additional Commissioners	6	7. Junior Posts at 23.17% of 4 above	34
Director of Sugar	1	8. Training Reserve at 11.91% of 4 above	18
Director of Handlooms, Powerlooms and Co-operative Textiles	1	Direct Recruitment Posts	271
Director of Employment	1	Promotion Posts	73
Deputy Director, Resettlement of Project Affected persons	1	Total Authorised Strength	344
Controller of Rationing	1		
Dairy Development Commissioner	1	*Includes ad-hoc increase of 30 posts."	
Additional Commissioners for Tribal sub-Plan	2		
	158		
2. Central Deputation @40% of item 1 above	63		
3. Posts to be filled by promotion or selection in accordance with Rule 8 of the IAS (Recruitment) Rules, 1954 at 33 1/3% of 1 plus 2 above.	73		

[No. 11031/3/83-AIS (II)]

M.P. KURUP, Desk Officer

Note:—The Principal Regulations were published in the Gazette vide S.R.O. No. 3350 dated the 22nd Oct., 1955. The Regulations in respect of Maharashtra Cadre have been amended vide G.S.R. Nos. 185(E) dated 25-4-74, 1299 dated 7-12-74, 465 (E) dated 23-7-76, 158 dated 9-2-80 and 788 dated 29-8-81.

